



ICMR NIOH
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH NATIONAL INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या. 1/परिपत्र/2026-27/689

Date : 23/07/2026

परिपत्र/Circular

Subject: Representation from Government servant on service matters – reiteration of instructions – regarding.

ICMR vide letter No.E16/82/2023-Admn/E.164228 dated 22/07/2026 has forwarded office memorandum as mentioned below:-

The undersigned is directed to refer to O.M. of even number dated 6th June, 2013 wherein instructions have been issued on submission of representation by Government servants about their service matters. In spite of these instructions, it has been observed that Government servants including officers/officials of para military forces and Army personnel continue to represent directly to the Prime Minister, Minister, Secretary (P) and other higher authorities, directly.


2. As per the existing instructions, wherever, in any matter connected with his service rights or conditions, a Government servant wishes to press a claim or to seek redressal of a grievance, the proper course for him is to address his immediate official superior, or Head of his office, or such other authority at the appropriate level who is competent to deal with the matter in the organisation.

3. Such submission of representations directly to other authorities by-passing the prescribed channel of communication, has to be viewed seriously and appropriate disciplinary action should be taken against those who violate these instructions. This can rightly be treated as an unbecoming conduct attracting the provisions of Rule 3 (1) (iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. It is clarified that this would include all forms of communication including through e-mails or public grievances portal etc.

4. Attention in this connection is also invited to the provision of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964 prohibiting Government servants from bringing outside influence in respect of matter pertaining to his service matter. Representation by relatives of Government servant is also treated as outside influence as clarified vide MHA OM No. F.25/21/63-Estt.(A) dated 19.09.1963

5. It is reiterated that these instructions may be brought to the notice of all Govt. servants including officers/ officials of para military forces and member of armed forces and action taken against those who violate these instructions.

This Issues with the approval of the Competent Authority of the Institute.




(राहुल वाधवानी / Rahul Wadhvani)
(व. प्रशा. अधिकारी / Sr. Admin. Officer)

प्रति/To: सूचना पट्ट / Notice Board

प्रतिलिपि/Copy to: ओआईसी, आरओएचसी (एस), बेंगलुरु / OIC, ROHC(S), Bengaluru

✓ डा. एस. के. शर्मा, वैद्यकीय - ९५



ICMR
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIOH
NATIONAL INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या. 1/परिपत्र/2026-27/689

Date : 23/07/2026

परिपत्र/Circular

विषय: सेवा संबंधी अभ्यावेदन (Representations) केवल निर्धारित माध्यम (Proper Channel) से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

ICMR ने पत्र संख्या E16/82/2023-Admn/E.164228 (दिनांक 22/07/2026) के ज़रिए नीचे बताया गया कार्यालयज्ञापन भेजा है:-

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या F. No. 11013/08/2013-Estt.(A-III) दिनांक 31.08.2015 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(iii) के प्रावधानों के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान/केन्द्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन, आवेदन, अनुरोध अथवा प्रतिवेदन केवल निर्धारित माध्यम (Proper Channel) से ही प्रस्तुत करेंगे।
2. DoPT के उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत अथवा दावा सीधे उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसे सभी अभ्यावेदन संबंधित नियंत्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से ही अग्रेषित किए जाएंगे। निर्धारित माध्यम को दरकिनार करते हुए सीधे उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रेषित करना केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(iii) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण (Unbecoming of a Government Servant) माना जाएगा।
3. अतः निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए—
 - (1) सभी सेवा संबंधी अभ्यावेदन/अनुरोध/प्रतिवेदन केवल निर्धारित माध्यम (Proper Channel) से ही अग्रेषित किए जाएं।
 - (2) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्धारित माध्यम का उल्लंघन करते हुए सीधे आईसीएमआर मुख्यालय अथवा किसी उच्च प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रेषित किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(iii) के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाए तथा नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
 - (3) इन निर्देशों की जानकारी आपके संस्थान/केन्द्र के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा भविष्य में इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

23/7/26

(राहुल वाधवानी / Rahul Wadhvani)
(व. प्रशा. अधिकारी / Sr. Admin. Officer)

प्रति/To: सूचना पट्ट / Notice Board

प्रतिलिपि/Copy to: ओआईसी, आरओएचसी (एस), बेंगलुरु / OIC, ROHC(S), Bengaluru